



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 9, 2008/पौष 19, 1929

No. 47]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 9, 2008/PAUSA 19, 1929

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

तालिका

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2008

का.आ. 66(अ).—यतः, मै., बाटा इंडिया लि., जो पश्चिम बंगाल राज्य में एक निजी संगठन है, ने पश्चिम बंगाल राज्य में जिला दक्षिण 24 परगना के जगतला तथा बांग्ला गांवों में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और, यतः, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने पश्चिम बंगाल राज्य में जिला दक्षिण 24 परगना के जगतला तथा बांग्ला गांवों में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रख-रखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 21 जून, 2007 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा, पश्चिम बंगाल राज्य में जिला दक्षिण 24 परगना के जगतला तथा बांग्ला गांवों में निम्नलिखित क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित आर.एस. डैंग संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :-

क्र.सं.	गांव	आर. एस. डैंग सं.	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	2	3	4
1.	जगतला	40पी	0.230622
2.		41एक	0.093058
3.		42पी	0.0639268
4.		43पी	0.5514698
5.		44पी	0.643314
6.		45एक	0.107219
7.		46एक	0.857752
8.		47पी	0.84966
9.		48एक	0.129472
10.		49पी	0.614992
11.		50पी	0.1359456
12.		51पी	0.218484
13.		52पी	0.042483
14.		53पी	0.0113288
15.	बांग्ला	66पी	0.0147914
16.		92पी	0.1229984
17.		93पी	0.0380324
18.		94पी	0.190162
19.		95पी	0.3022362
20.		96पी	0.0347956

1	2	3	4
21.		97पी	0.064736
22.		98पी	0.0190162
23.		99पी	0.942718
24.		100पी	0.0801108
25.		101पी	0.908327
26.		102एफ	0.0934626
27.		103पी	0.562394
28.		104एफ	0.093058
29.		105पी	0.0975086
30.		106एफ	0.016184
31.		107पी	0.1440376
32.		108पी	0.0206346
33.		109पी	0.370209
34.		110पी	0.0311542
35.		111पी	0.554302
36.		112पी	0.0841568
37.		113पी	0.653429
38.		222पी	0.0117334
39.		227पी	0.024276
		कुल	10.1141908

[फा. सं. 2/221/2006-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2008

S.O. 66(E).—Whereas, M/s. Bata India Limited, a Private Organization in the State of West Bengal, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology at Villages Jagtala and Bangla, District South 24 Parganas, in the State of West Bengal;

And, whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the sector specific Special Economic Zone for information technology at Villages Jagtala and Bangla, District South 24 Parganas, in the State of West Bengal on 21st June, 2007;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the following area at Villages Jagtala and Bangla, District South 24 Parganas, in the State of West Bengal, comprising of the R.S. Dag numbers and the area given below, as a Special Economic Zone:—

TABLE

Sl. No.	Village	R.S. Dag numbers	Area (in hectares)
1	2	3	4
1.	Jagtala	40P	0.230622
2.		41F	0.093058
3.		42P	0.0639268
4.		43P	0.5514698
5.		44P	0.643314
6.		45F	0.107219
7.		46F	0.857752
8.		47P	0.84966
9.		48F	0.129472
10.		49P	0.614992
11.		50P	0.1359456
12.		51P	0.218484
13.		52P	0.042483
14.		53P	0.0113288
15.	Bangla	66P	0.0147914
16.		92P	0.1229984
17.		93P	0.0380324
18.		94P	0.190162
19.		95P	0.3022362
20.		96P	0.0347956
21.		97P	0.064736
22.		98P	0.0190162
23.		99P	0.942718
24.		100P	0.0801108
25.		101P	0.908327
26.		102F	0.0934626
27.		103P	0.562394
28.		104F	0.093058
29.		105P	0.0975086
30.		106F	0.016184
31.		107P	0.1440376
32.		108P	0.0206346
33.		109P	0.370209
34.		110P	0.0311542
35.		111P	0.554302

1	2	3	4
36.	Bangla (Contd.)	112P	0.0841568
37.		113P	0.653429
38.		222P	0.0117334
39.		227P	0.024276
TOTAL			10.1141908

[F.No. 2/221/2006-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2008

का.आ. 67(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, दिनांक 2008 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिसमें जिससे पश्चिम बंगाल राज्य के गाँव जगतला और बांग्ला, जिला दक्षिण 24 परगना में मै. बाटा इंडिया लि. द्वारा स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एसईजेड को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[फा. सं. 2/221/2006-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2008

S. O. 67(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby appoints the..... day of 2008 as the date from which the information technology Special Economic Zone at Village Jagtala and Bangla, District South 24 Parganas, West Bengal by M/s. Bata India Limited shall be deemed to be Inland Container Depot under Section 7 of the Customs Act, 1962.

[F.No. 2/221/2006-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2008

का.आ. 68(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ मै. बाटा इंडिया लिमिटेड द्वारा जगतला एवं बांग्ला गाँव, जिला दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में सूचना प्रौद्योगिकी हेतु विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :-

1.	विकास आयुक्त	अध्यक्ष पदेन
	फाल्टा विशेष आर्थिक जोन	
2.	निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार,	सदस्य, पदेन
	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा	
3.	संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक,	सदस्य, पदेन
	कोलकाता	

4.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
5.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
6.	निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
7.	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
8.	मै. बाटा इंडिया लिमिटेड (विकासकर्ता) का प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रिती

2. विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व वह अधिकारी करेगा जिसका स्तर संयुक्त विकास आयुक्त से कम नहीं होगा।

[सं. फा. 2/221/2006-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2008

S. O. 68(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the Information Technology Special Economic Zone at Village Jagtala and Bangla, District South 24 Parganas, West Bengal by M/s. Bata India Limited for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely:—

1.	Development Commissioner Falta Special Economic Zone	Chairperson, Ex-Officio
2.	Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India	Member, Ex-Officio
3.	Joint Director General of Foreign Trade, Kolkata	Member, Ex-Officio

4. Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member Ex-Officio	6. Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking. Division, Government of India	Member, Ex-Officio
5. Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member Ex-Officio	7. Two Officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the Government of West Bengal	Members Ex-Officio
		8. Representative of M/s. Bata India Limited (Developer)	Special Invitee

2. In the absence of Development Commissioner of the Special Economic Zone, an officer not below the rank of Joint Development Commissioner shall represent him.

[F. No. 2/221/2006-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.